



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन 1940 (श10)  
(सं0 पटना 462) पटना, बुधवार, 20 मार्च 2019

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना  
24 सितम्बर 2018

सं० 788—श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम—रजीगंज, पोस्ट—रानीपतरा, थाना—मुफस्सिल, जिला—पूर्णिया पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—3871 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था एवं संचालन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 1170, दिनांक 01.07.1992 द्वारा एक न्यास समिति का गठन अगले आदेश तक के लिए किया गया था। किन्तु उक्त न्यास समिति के अधिकांश सदस्यों का देहान्त हो चुका है। न्यास समिति द्वारा वर्षों से आय-व्यय विवरणी, बैठक के कार्यवृत्त एवं पर्षद शुल्क आदि दाखिल नहीं किया गया है। साथ ही पर्षद के आदेशों/निर्देशों का पालन भी नहीं किया गया। न्यास समिति द्वारा न्यास के विकास हेतु क्या-क्या कार्य किये गये इससे भी पर्षद को अवगत नहीं कराया गया। इसलिए न्यास समिति को बिहार हिन्दू धार्मिक अधिनियम की धारा 29 (2) के अन्तर्गत विघटन की नोटिस दी गयी और पर्षदीय पत्रांक 1756, दिनांक 08.09.2016 एवं पत्रांक 473, दिनांक 01.06.2017 द्वारा अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व, जिला—पूर्णिया से न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु न्यास समिति गठन हेतु स्थानीय ग्यारह प्रतिष्ठित सज्जनों के नाम की मांग की गयी थी। इसके आलोक में अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व, जिला—पूर्णिया ने अपने पत्रांक 1156, दिनांक 17.07.2017 द्वारा नवीन न्यास समिति के गठन हेतु ग्यारह व्यक्तियों का नाम पर्षद को उपलब्ध कराया है।

अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व, जिला—पूर्णिया से न्यास समिति गठन हेतु प्राप्त नामों को पर्षदीय पत्रांक 1855, दिनांक 12.12.2017 द्वारा थानाध्यक्ष, सदर पूर्णिया, जिला—पूर्णिया को चरित्र सत्यापन हेतु भेजा गया जिसे थानाध्यक्ष, मुफस्सिल थाना, जिला—पूर्णिया के ज्ञापांक 215/18 दिनांक 31.01.2018 द्वारा सत्यापित कर भेजा गया है जिसमें न्यास समिति के गठन हेतु प्रस्तावित नामों को सही पाया गया तथा उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होने का उल्लेख किया गया है। अतः अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व, जिला—पूर्णिया द्वारा न्यास समिति गठन हेतु भेजे गये नामों के आलोक में न्यास के सुचारु प्रबंधन हेतु न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 81 (1) (ख) एवं 8 (क) के तहत प्रशासक को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम—रजीगंज, पोस्ट—रानीपतरा, थाना—मुफस्सिल, जिला—पूर्णिया की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

## योजना

1. अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, रजीगंज, पूर्णिया, न्यास योजना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, रजीगंज, पूर्णिया, न्यास समिति” होगा।
2. श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम—रजीगंज, पोस्ट—रानीपतरा, थाना—मुफस्सिल, जिला—पूर्णिया तथा इसकी समस्त चल—अचल सम्पत्ति तथा आय के प्रबंधन, संचालन एवं प्रशासन का अधिकार श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम—रजीगंज, पोस्ट—रानीपतरा, थाना—मुफस्सिल, जिला—पूर्णिया न्यास समिति में निहित होगा।
3. न्यास समिति न्यास हित में प्रशासनिक एवं राजस्व सम्बंधी कार्य करेगी तथा अध्यात्मिक कार्य, यथा राग—भोग, पूजा—पाठ इत्यादि में कोई कोताही नहीं करेगी। उक्त कार्य में होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन न्यास समिति करेगी।
4. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मन्दिर में परम्परागत पूजा—अर्चना, राग—भोग, उत्सव—समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा।
5. न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और बैंक खाता का संचालन समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त के हस्ताक्षर से होगा।
6. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राशि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण विहित प्रपत्र में किया जायेगा तथा आय—व्यय का विवरणी बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को त्रैमासिक/छः मासिक/नौ मासिक/वार्षिक अगामी माह के प्रथम सप्ताह में भेज दिया करेंगे।
7. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राशि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण किया जायेगा।
8. न्यास समिति के आय—व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी।
9. मन्दिर में आने वाल आस्थावान भक्तों के साथ किसी प्रकार का भेद—भाव नहीं किया जायेगा। विशेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा।
10. मन्दिर परिसर में भेंट पात्र रखे जायेंगे जो प्रत्येक माह एक निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।
11. न्यास समिति न्यास परिसर को स्वच्छ एवं अतिक्रमणमुक्त रखेगी।
12. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा वार्षिक आय—व्यय का विवरण, बजट, देय शुल्क की राशि एवं बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय भेजेगी।
13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष लेखा की सम्यक् संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे।
14. न्यास समिति की बैठक मन्दिर परिसर में प्रत्येक माह होगी।
15. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
16. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि मन्दिर की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
17. न्यास समिति को न्यास की कोई सम्पत्ति बेचने, पट्टा पर देने या किसी प्रकार से दुरुपयोग का अधिकार नहीं होगा।
18. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाई करेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. श्री मन्दु चौधरी स्व० भीष्म चंद्र चौधरी,<br>ग्राम—रजीगंज, पोस्ट—रानीपतरा, जिला—पूर्णिया,            | — अध्यक्ष,    |
| 2. श्री प्रशांत कुमार सोनू, पिता—शंकर प्रसाद साह,<br>ग्राम—रजीगंज, पोस्ट—रानीपतरा, जिला—पूर्णिया,      | — उपाध्यक्ष,  |
| 3. श्री विनय साह, पिता—स्व० ठाकुर प्रसाद साह,<br>ग्राम—रजीगंज, पोस्ट—रानीपतरा, जिला—पूर्णिया,          | — सचिव,       |
| 4. श्री शरद कुमार साह, पिता—बिरेन्द्र कुमार साह,<br>ग्राम—रजीगंज, पोस्ट—रानीपतरा, जिला—पूर्णिया,       | — कोषाध्यक्ष, |
| 5. श्री दीना नाथ उराँव, पिता—स्व० गणेश उराँव,<br>ग्राम—रायपुर रानीपतरा, पोस्ट—रानीपतरा, जिला—पूर्णिया, | — सदस्य       |

6. श्री आलोक कुमार रिन्कु, पिता-श्याम नारायण साह,  
ग्राम-रजीगंज, पोस्ट-रानीपतरा, जिला-पूर्णिया, — सदस्य
7. श्री अशोक मंडल, पिता-स्व० विद्यानाथ मंडल,  
ग्राम-रजीगंज, पोस्ट-रानीपतरा, जिला-पूर्णिया, — सदस्य
8. श्री मनोज चौधरी, पिता-रामदास चौधरी,  
ग्राम-भोलाबाड़ी, पोस्ट-रानीपतरा, जिला-पूर्णिया, — सदस्य
9. श्री वकील यादव, पिता-स्व० महादेव यादव,  
ग्राम-चाँदी कठवा, पोस्ट-रानीपतरा, जिला-पूर्णिया, — सदस्य
10. श्री सुरेश मेहता, पिता-स्व० नेवालाल मेहता,  
ग्राम-मोतीनगर, पोस्ट-रानीपतरा, जिला-पूर्णिया, — सदस्य
11. श्री सुरेश ऋषि, पिता-समर ऋषि,  
ग्राम-बड़ी मुसहरी, पोस्ट-रानीपतरा, जिला-पूर्णिया, — सदस्य  
सभी का पिनकोड-854337।

यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 (पाँच) वर्षों का होगा।

आदेश से,  
अखिलेश कुमार जैन,  
प्रशासक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 462-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>